



आर्यावर्त बैंक

प्रधान कार्यालय, ए-2/46 विजय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226 010

नोटिस

आई.बी.पी.एस द्वारा आयोजित कॉमन लिखित परीक्षा (सी0डब्ल्यू0ई0 आर0आर0बी0-X) (आरक्षित सूची) के माध्यम से आर्यावर्त बैंक में अधिकारी स्केल- I तथा कार्यालय सहायक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नियुक्ति पूर्व औपचारिकताएं पूर्ण करा ली हैं, उनकी बैंक सेवा में योगदान प्रस्तुत करने से पूर्व, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिनांक 22-10-2022 को सभी अभ्यर्थियों को वर्चुअल मोड के माध्यम से 11.00 बजे संबोधित किया जायेगा।

उक्त क्रम में अभ्यर्थियों की बैंक सेवा में योगदान देने के सम्बंध में विस्तृत दिशानिर्देश निम्नवत हैं:-

1. दिनांक 22-10-2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा, मिशन-नियुक्ति के तहत सभी अभ्यर्थियों को वर्चुअल मोड के माध्यम से 11.00 बजे संबोधित किया जायेगा। उक्त वर्चुअल संबोधन में सभी अभ्यर्थियों की सहभागिता अनिवार्य होगी।

2. वर्चुअल संबोधन में सम्मिलित होने हेतु वेबलिंग निम्नवत है-

वेबलिंग - <https://pmindiawebcast.nic.in/>

दिनांक- 22-10-2022

समय- प्रातः 11.00 बजे

माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन उपरांत आपके नियुक्ति-प्रस्ताव पत्र ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाएंगे।

3. सभी अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा नियुक्ति पूर्व औपचारिकताएं पूर्ण करा ली गयी हैं, एवं सभी आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज/प्रमाण पत्र जमा करा दिये गये हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को कोई प्रपत्र जमा कराना है, तो दिनांक 25.10.2022 तक ई-मेल के माध्यम से आवश्यक प्रपत्र अवश्य प्रेषित कर दें।

4. आपसे यह अपेक्षित है कि यदि आप वर्तमान में किसी अन्य संस्था में कार्यरत हैं, तो आप विलम्बतम दिनांक 25-10-2022 तक कार्यमुक्त होकर दिनांक 29-10-2022 तक कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दें।

5. आप को सलाह दी जाती है कि आप बैंक सेवा में योगदान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से दिनांक 01-11-2022 को प्रातः 10:00 बजे आपको आवंटित क्षेत्रीय कार्यालय में योगदान देने के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे एवं क्षेत्रीय कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करने के उपरांत दिनांक 01.11.2022 से 05.11.2022 के मध्य बैंक द्वारा आयोजित 05 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता प्रस्तुत करें।

6. आप द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर आवंटित क्षेत्रीय कार्यालय पर आपके योगदान देने के एवं नियुक्ति प्रस्ताव पत्र पर अपनी अभिस्वीकृति प्रदान करने तथा सफलतापूर्वक ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के पश्चात आपकी बैंक सेवा में योगदान तिथि, क्षेत्रीय कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करने की तिथि अर्थात् 01.11.2022 से प्रभावी होगी। किन्तु यदि दिनांक 01.11.2022 को आवंटित क्षेत्रीय कार्यालय में आप रिपोर्ट नहीं करते हैं अथवा यदि वर्तमान में आप किसी अन्य संस्था में कार्यरत है और दिनांक 29.10.2022 से पूर्व अपने वर्तमान नियोक्ता से कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो बैंक सेवा में आपकी योगदान तिथि दिनांक 01.11.2022 से प्रभावी नहीं मानी जायेगी।

(महाप्रबन्धक)

मानव संसाधन एवं औ0 वि0 विभाग

प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

दिनांक: 20.10.2022